

ओंकारानंद इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 15 छात्रों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्लेस्मेंट ड्राइव में स्थापित किया नया कीर्तिमान

ओंकारानंद इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऋषिकेश के कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आई0 टी0) विभाग के अभय गोयल, नमन शर्मा, नरेंद्र रावत, रिनी शुक्ला, ऋषभ जोशी, शशांक सिंघल, सुमेश सिंह, सुमित कुमार, विकास कुमार, अदिति कोहली, अनुराग थपलियाल, रोहित राणा, नित्यानंद, अश्वित शाहू एवं शुभम गौतम ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी की प्रतिष्ठित भारतीय अंतरराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया में अपने भविष्य को सुरक्षित किया। इस प्लेस्मेंट ड्राइव को कंपनी द्वारा अक्टूबर से मार्च तक प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरे देश से छात्रों को शामिल किया गया था। सभी छात्रों को 6 माह तक विभिन्न प्रकार के टास्क दिए गए एवं जिन छात्रों ने इस प्रकार के टास्क को समयबद्ध तरीके एवं तार्किक रूप से सॉल्व किया उन छात्रों को अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार प्रक्रिया में कंपनी द्वारा निर्धारित उच्च माप दण्डों के आधार पर इन सभी छात्रों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संस्थान के 13 छात्र एवं 2 छात्राओं ने कंपनी के उच्च माप दण्डों पर खरे उतरते हुए अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा टी0 सी0 एस0 कंपनी में रोजगार एवं उच्च शिक्षा को सुनिश्चित किया।

संस्थान के प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री मोहित कुमार धस्माना ने बताया की संस्थान का मकसद छात्रों को बेहतरीन पढ़ाई के साथ ही करियर के बेहतर विकल्प प्रदान करना है यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में संस्थान का प्लेस्मेंट ग्राफ नए आयाम स्थापित कर रहा है। संस्थान द्वारा छात्रों को दी जा रही अत्याधुनिक शिक्षा से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के छात्रों को भी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है

जिससे छात्रों को रोजगार के साथ साथ नए तकनीक की जानकारी भी मिलती है जो भविष्य में छात्रों को और बड़े अवसर उपलब्ध कराएगी। संस्थान के प्रबंध समिति के सचिव भरत सिंह तोमर एवं निदेशक डॉ राजुल दत्त ने सभी छात्र-छात्राओं का आह्वान किया की भविष्य में इसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना चाहिए एवं साथ ही साथ सभी चयनित छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आई0 टी0) के विभागाध्यक्ष डॉ नरेंद्र पंचार ने बताया की संस्थान में छात्रों को समय समय पर प्लेस्मेंट सैल की प्रोफेशनल टीम द्वारा तकनीकी, तार्किक एवं साक्षत्कार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे छात्रों को लाभ मिल रहा है। सभी चयनित छात्र एक वर्ष तक 1.89 लाख के सैलरी पैकेज के साथ ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में कंपनी में सेवाएं देंगे। एक वर्ष के पश्चात छात्रों को 3.5 लाख के सैलरी पैकेज के साथ प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी एवं ३ वर्ष के कार्यकाल के बाद 4.5 लाख के सैलरी पैकेज के साथ प्रोग्रामर से सिस्टम इंजीनियर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

इस अवसर पर संस्थान के फैकल्टी प्रमोद उनियाल, डॉ विकास गैरोला, डॉ राजेश मनचंदा, डॉ आम्रपाली भंडारी, डॉ नितिका अरोड़ा, डॉ मनमोहन लखेड़ा, डॉ सचिन गर्ग, अपूर्वा त्रिवेदी, आलोक उनियाल, नवीन द्विवेदी, अनिल राणाकोटी, नूपुर रैना, मनमीत कौर, सनील रावत, देवप्रिय दास, अनुराधा, अंजनीश पाल, आशीष लखेड़ा, रविंद्र थपलियाल आदि उपस्थित थे।



Abhay Goel



Naman sharma



Narendra Rawat



Rini Shukla



Rishabh Joshi



Shshank Singhal



Sumesh Singh



Sumit Kumar



Vikas Kumar



Aditi Kohli



Anurag Thapliyal



Rohit Rana



Nityanand



Ashmit Sahu



Shubham Gautam